

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2016—वैशाख 15, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2016

क्र. बी.-15-8-2010-14-2.—मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम 1980 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल में निम्नांकित प्रगतिशील कृषकों को अशासकीय सदस्य नामांकित करता है:—

| क्र. (1) | प्रगतिशील कृषक का नाम (2) | मनोनीत अशासकीय सदस्य (3) |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 01 | श्री विक्रम तिवारी आत्मज श्री राम कुमार तिवारी ग्राम-बोरना पोस्ट, जैत तह-बुदनी जिला सीहोर (म. प्र.). | “गेहूँ” उत्पादन करने वाला कृषक |
| 02 | श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर पिता श्री दयाराम गुर्जर, ग्राम-गुंजली तह. पुनासा, जिला खण्डवा (म. प्र.). | “कपास” उत्पादन करने वाला कृषक |
| 03 | श्री चंद्रमोहन गुप्ता/श्री शंकरलाल गुप्ता ग्राम-चौछाट तह. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर (म. प्र.). | “दलहन-तिलहन” उत्पादन करने वाला कृषक |

2. उक्त अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.